



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2019/आश्विन 8, 1941

No. 573]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019/ASVINA 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सं. 01/2019-स्वापक नियंत्रण-1

सा.का.नि. 698(अ).—नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 7ख और नशीली दवा और मादक पदार्थ (दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय फण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 9 की शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार धारा 7क की उपधारा (2) के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के फण्ड से जिन गतिविधियों को वित्त पोषित किया गया है उस पर वार्षिक रिपोर्ट को अधिसूचित किया है और साथ ही लेखा-जोखा निम्नलिखित है:

एनएफसीडीए प्रमुख शीर्ष 8121.00.118.01 के संबंध में लेखा-जोखा-वर्ष 2018-19 का सामान्य और आरक्षित कोष की रसीद और वितरण

(आंकड़े रुपयों में)

वित्त वर्ष	रोकड़ जमा	जब्त संपत्ति से प्राप्त/अप्रयुक्त धन	कोई भी आय (ब्याज)	कुल रसीदें	वितरण	अंतिम जमा राशि
2018-19	266923252/-	(1) बिक्री से प्राप्त आय- 2446000/- (2) अप्रयुक्त धन की वसूली- 0/- कुल योग= 2446000/-	16015395/-	18461395/	0/-	285384647/-

[फा. सं. एन-21014/1/2014-एनसी-1]

टी. के. सतपथी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2019

No. 1/2019-Narcotics Control-1

G.S.R. 698(E).—In terms of Section 7B of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and rule 9 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund for Control of Drugs Abuse) Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the annual report giving an account of activities financed under sub-section (2) of Section 7A out of the Fund during the financial year 2018-19 together with Statement of Accounts as under:—

STATEMENT OF ACCOUNT IN RESPECT OF NFCDA MAJOR HEAD 8121.00.118.01—GENERAL AND RESERVE FUND FOR THE YEAR 2018-19 RECEIPT AND DISBURSEMENT

(figure in Rs.)

Financial year	Opening Balance	Sale Proceeds of forfeited property/Unutilized money	Any Income (Interest)	Total Receipts	Disbursement	Closing Balance
2018-19	266923252/-	(1) Sale proceed- 2446000/- (2) Refund of unutilized amount- 0/- Total = 2446000/-	16015395/-	18461395/-	0/-	285384647/-

[F. No. N-21014/1/2014-NC-I]

T. K. SATPATHY, Under Secy.